

February 15, 2021

The BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Phones: 022 - 2272 1233
Fax: 91-22-22721919
corp.comm@bseindia.com

Security Code No. : 542376

Sub: Newspaper Advertisement - Intimation of Statement of Financial Results for the 3rd Quarter and Nine Months ended 31st December 2020

Dear Sir(s),

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith newspaper advertisement published in Financial Express (English National daily newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper), both dated February 14, 2021, for the financial results (both on standalone and consolidated basis) of the Company for the 3rd quarter and Nine months ended December 31, 2020 as approved by the Board of Directors at their Board Meeting held on February 12, 2021.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking You.

Yours faithfully,
For **SPA Capital Services Limited**


Sukhjit Kaur
Company Secretary & Compliance Officer



SPA CAPITAL SERVICES LIMITED

Registered Office : 25, C-Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110 058
Website: http://www.spacapital.com/CapitalServices/ CIN: L65910DL1984PLC018749, Tel No.: 011-45586600, 45675500, E-Mail Id: listing@spacapital.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3rd QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020 (Rs. In Crores except for Shares and EPS)

Table with 12 columns: Particulars, Quarter ended December 31, 2020, Quarter ended September 30, 2020, Quarterly ended December 31, 2019, Nine Months ended December 31, 2020, Nine Months ended December 31, 2019, Year ended March 31, 2020, Quarter ended December 31, 2020, Quarter ended September 30, 2020, Nine Months ended December 31, 2020, Year ended March 31, 2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Reserves, and Earnings Per Share.

NOTES: 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the 3rd quarter and Nine months ended December 31, 2020 of the Financial year 2020-21 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI Listing Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the 3rd quarter and Nine Months ended December 31, 2020 of the Financial year 2020-21 is available on the website of Stock Exchange at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at http://www.spacapital.com/Capital/Services/.

For and on behalf of Board of Directors Sd/- Sandeep Parwal Chairman Cum Managing Director DIN: 00025803

Place: New Delhi Date: February 12, 2021

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

CIN: L99999DL1984PLC019052

पंजी. कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रेस्टीज माल, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी सेंटर, रोड नं. 44 पर, पीतम्पुरा, दिल्ली-110034, बोर्ड: + 91 11 47527700 फैक्स: + 91 11 47527777

ई-मेल: agarwalduplex1984@gmail.com, वेबसाइट: www.agarwalduplex.net

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही व नौ माही के लिए अनकेक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलॉन) (रु. लाख में)

Table with 12 columns: विवरण, 31 दिस. 20 3 महीने (अनकेक्षित), 30 सित. 20 3 महीने (अनकेक्षित), 31 दिस. 19 3 महीने (अनकेक्षित), 31 दिस. 20 9 महीने (अनकेक्षित), 31 दिस. 19 9 महीने (अनकेक्षित), 31 मार्च, 20 12 महीने (अनकेक्षित). Rows include परिचालन से कुल आय, अर्जन प्रति शेयर, and Earnings Per Share.

उक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य देयताएं आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत एकसंजंज के साथ दायर तिमाही व नौ माही अनकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही व नौ माही अनकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.mse.in) पर भी उपलब्ध है।

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड हस्ता./- नीरज गोयल प्रबंध निदेशक DIN: 00017498

DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED

CIN:L24112UP1992PLC014478 Village Pallawala, Tehsil Dhampur, District Bijnor (U.P.)-246761

FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER & NINE MONTH ENDED 31TH DECEMBER 2020 (Rs. In Lacs)

Table with 12 columns: Particulars, Quarter ended 31.12.2020, Quarter ended 30.09.2020, Quarter ended 31.12.2019, Nine Month ended 31.12.2020, Nine Month ended 31.12.2019, Year ended 31.03.2020, Quarter ended 31.12.2020, Quarter ended 30.09.2020, Nine Month ended 31.12.2019, Year ended 31.03.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Reserves, and Earnings Per Share.

NOTES: (1) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 13.02.2021. (2) The Statutory Auditor of the company has issued a Limited review report on the Un-Audited standalone and consolidated financial result for the quarter ended 31th December, 2020

For and on behalf of board Sd/- Anesh Jain Company Secretary

Place: New Delhi Date: 13/02/2021

फोकस इंडस्ट्रियल रिसेंसिज लिमिटेड

CIN:L15319D1985PLC021348 पंजीकृत कार्यालय: 104, मुद्रण इलाका, अन्वितिय कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033

ई-मेल आईडी: info@focuslimited.in | वेबसाइट: www.focuslimited.in | फोन नं.: 011-27678399

Table with 5 columns: विवरण, 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए, 31.12.2019 को समाप्त तिमाही के लिए, 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए, 31.03.2020 को समाप्त तिमाही के लिए. Rows include परिचालन से कुल आय, अर्जन प्रति शेयर, and Earnings Per Share.

उक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य देयताएं आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है।

निदेशक मंडल की ओर से उ जारी के लिए फोकस इंडस्ट्रियल रिसेंसिज लिमिटेड हस्ता./- (समज शिखर) प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00085006

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 13.02.2021

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

CIN : L24239HR1984PLC040797

पंजी. कार्या. : लोडस्ट ग्रीन सिटी, सेक्टर-23 एवं 24, विवाही अलवर बाईपास 75 भी. रोड, शाहपुरा, राजाही-123401

Ph. : +91-7419885077 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com, Website : www.newtimeinfra.in

बोर्ड की बैठक को निलम्बन सूचना पत्रद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक जो आज, शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जानी थी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के विनियम अनकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समकित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिया जाना था, को स्थगित कर दिया गया है, तथा वह सोमवार, 15 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी।

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के विनियम अपेक्षा पत्रद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक जो आज, शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जानी थी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के विनियम अनकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समकित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिया जाना था, को स्थगित कर दिया गया है, तथा वह सोमवार, 15 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी।

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के विनियम अपेक्षा पत्रद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक जो आज, शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जानी थी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के विनियम अनकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समकित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिया जाना था, को स्थगित कर दिया गया है, तथा वह सोमवार, 15 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी।

KUMAR FOOD INDUSTRIES LIMITED

Registered office: 71/1, Siraspur, Delhi-110042 E-mail ID: cs@kumarfood.com Web: www.kumarfood.com CIN: L15310DL1991PLC043456

UNAUDITED QUARTERLY FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED 31.12.2020 (Rs. In Lakh except EPS)

Table with 12 columns: Particulars, Quarter ending December 31, 2020, Quarter ending December 31, 2019, Quarter ending September 30, 2020, Nine Months ended December 31, 2020, Year ended March 31, 2020, Year ended March 31, 2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Reserves, and Earnings Per Share.

NOTES: 1. The above results were un-audited and reviewed by the statutory auditors and approved by the audit committee and taken on record by the Board of Directors in their meeting held today. The figures between audited figures in respect of full year 31.03.2020 and published year-to-date figures upto the second quarter of the current financial year are unaudited.

For and on behalf of Kumar Food Industries Limited Sd/- Dharminder Joshi Director (DIN 05186749)

Place: Delhi Date: 13.02.2021

VINTRON INFORMATICS LIMITED

CIN: L72100DL1991PLC045276 Registered Office: D-107 & 108, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Phone: EPABX - 43740000; Fax: +91-11-43740040 Website: www.vintroninformatics.com; Email: vil_vintron@hotmail.com

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER 2020 (Rs. In Lakhs)

Table with 6 columns: PARTICULARS, 31/12/2020, 30/9/2020, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2019, 31/03/2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Reserves, and Earnings Per Share.

NOTES: 1. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and the same have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 13th February, 2021 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

For and on behalf of the Board VINTRON INFORMATICS LIMITED Sd/- (ARVIND SHARMA) Managing Director DIN: 00012177

मनीबोक्स फाइनेंस लिमिटेड

CIN: L30007DL1994PLC260191

पंजीकृत कार्यालय: 523-ए सोमदत्त सेक्टर-II, 9, भीकानी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066

दूरभाष : 011-45657452, ई-मेल आईडी : info@moneyboxfinance.com, www.moneyboxfinance.com

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के उद्धरित वित्तीय परिणाम (रु. लाखों में)

Table with 7 columns: विवरण, 31.12.2020, 30.09.2020, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.03.2020. Rows include परिचालन से कुल आय, अर्जन प्रति शेयर, and Earnings Per Share.

एकीकृत वित्तीय परिणामों पर टिप्पणियाँ 1 सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत उपरोक्त उद्धरित वित्तीय परिणामों का विस्तारित उद्धरित स्वरूप स्टॉक एक्सचेंजों में दायित्व किया गया। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं मनीबोक्स फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट (www.moneyboxfinance.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की ओर से उ जारी के लिए मनीबोक्स फाइनेंस लिमिटेड हस्ता./- (सीधक अग्रवाल) पूर्ण-कालिक निदेशक डीआईएन: 03140334

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 13/02/2021

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

CIN:L15202UP1992PLC014593 Regd. Office: D-3, UPSIDC INDUSTRIAL AREA, JAINPUR KANPUR DEHAT-20911 (U.P.)

Tele. No. +91 512 4003999 ; Website: www.tastydairy.com ; Email id: info@tastydairy.com

Extract of standalone un-audited financial results for the quarter and nine months ended 31st december, 2020 (Rs in Laacs except for Earning per share)

Table with 7 columns: Particulars, Quarter ending 31.12.2020, Quarter ending 30.09.2020, Quarter ending 31.12.2019, Nine months ended 31.12.2020, Nine months ended 31.12.2019, Year ended 31.03.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Reserves, and Earnings Per Share.

NOTES: 1. The Company has adopted Indian Accounting Standards (IndAS) with the transaction date of 01.04.2019. Accordingly the financial for the quarter/nine months ended 31st December, 2019 and 31st December, 2020 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in IND AS 34 "Interim Financial Reporting" prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure requirements) Regulation 2015 and SEBI circular dated 5th July, 2016.

For Tasty Dairy Specialities Ltd. Sd/- Atul Mehra Chairman & Whole time Director

Place: Kanpur Date : 14-02-2021

For All Advertisement Booking Call : 0120-6651214

McNally Bharat Engineering Company Limited
 CIN: L45202WB1961PLC025181
 Regd. Office: 4 Mangoe Lane, Pokkata 700 001
 Web:www.mcnallybharat.com, Email id: mbeocal@mbecl.co.in
 Phone no: (033) 6628-1111

Statement of unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020
 (Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Three months ended	Nine months ended	Year ended	Three months ended	Nine months ended	Year ended
	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1. Total Income from operations	7,304.94	12,748.92	21,284.65	12,049.33	16,423.75	32,648.20
2. Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional items)	(2,115.30)	(15,158.21)	(6,373.49)	(2,347.16)	(19,431.39)	(7,287.55)
3. Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(2,115.30)	(15,158.21)	(6,373.49)	(2,347.16)	(19,431.39)	(7,287.55)
4. Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(2,115.30)	(1,553.43)	(6,373.49)	(2,347.16)	(3,087.95)	(1,941.39)
5. Other Comprehensive Income (net of tax)	0.23	(26.33)	4.70	(78.99)	8.94	(1.77)
6. Total Comprehensive Income for the period	(2,115.09)	(15,184.54)	(6,368.79)	(2,426.15)	(19,430.31)	(8,289.32)
7. Equity share Capital	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08	21,157.08
8. Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	(7,572.53)
9. Earning per Share (EPS) for the period (Face value Rs.10/- per share)	(1.00)	(8.66)	(3.01)	(10.58)	(18.00)	(0.92)
- Basic (Rs.)	(1.00)	(8.66)	(3.01)	(10.58)	(18.00)	(0.92)
- Diluted (Rs.)	(1.00)	(8.66)	(3.01)	(10.58)	(18.00)	(0.92)

Note:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com) & NSE (www.nseindia.com) and shall also be available on website of the company (www.mcnallybharat.com).

Place: Kolkata
 Date: 13-02-2021

IL&FS Engineering Services
 IL&FS Engineering and Construction Company Limited
 CIN: L45201TG1988PLC008624
 Regd. Office: D.No.8-2-120/113, B-Block, 1st Floor, Sanali Info Park, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500033
 Ph: 040-40409333; Fax: 040-40409444; Email: cs@ilfsengg.com; Web: www.ilfsengg.com

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2020
 (Rs. In Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended			Nine months ended		
	31-Dec-20	30-Sep-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Mar-20
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Income						
(a) Revenue from operations	7,646	6,949	9,608	17,928	38,541	56,239
(b) Other income	437	816	950	1,754	3,204	4,550
Total Income	8,083	7,765	10,558	19,682	41,745	60,789
2. Expenses						
(a) Cost of materials consumed	2,420	1,799	1,867	5,145	9,595	14,179
(b) Subcontracting expense	3,982	3,023	6,164	8,547	19,222	24,351
(c) Employee benefits expense	1,169	1,246	1,275	3,669	4,867	6,681
(d) Finance cost	631	384	147	1,518	870	2,611
(e) Depreciation and amortization	410	519	734	1,421	2,361	3,219
(f) Other expenses	788	3,352	1,731	4,936	5,690	10,429
Total expenses	9,400	10,323	11,918	25,236	42,605	61,470
3. Profit / (loss) before Exceptional Items and tax (1-2)	(1,317)	(2,558)	(1,360)	(5,554)	(860)	(681)
4. Exceptional items (net) (Refer note 14)	-	4,758	-	4,758	38,426	39,945
5. Profit/(Loss) before tax (3-4)	(1,317)	(7,316)	(1,360)	(10,312)	(39,286)	(40,626)
6. Tax (expense) / credit	-	-	-	-	-	-
-Current Tax	-	-	-	-	-	-
-Deferred Tax	-	-	-	-	-	-
7. Share of profit in joint ventures accounted for using the equity method	-	-	-	-	138	121
8. Net Profit / (loss) after Exceptional Items and tax (5+6+7)	(1,317)	(7,316)	(1,360)	(10,312)	(39,148)	(40,505)
Attributable to:						
Shareholder of the Company	-	-	-	-	-	-
Non controlling interests	-	-	-	-	-	-
9. Other Comprehensive Income/(expense)(net of tax)	-	-	-	-	-	-
Attributable to:	-	-	-	-	-	-
Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	-
a) Remeasurements of the defined benefit plan	-	-	-	-	-	-
b) Income tax relating to the items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	-
Shareholder of the Company	-	-	-	-	-	-
Non controlling interests	-	-	-	-	-	-
10. Total comprehensive income for the period (8+9)	(1,317)	(7,316)	(1,360)	(10,312)	(39,148)	(40,505)
Attributable to:	-	-	-	-	-	-
Shareholder of the Company	-	-	-	-	-	-
Non controlling interests	-	-	-	-	-	-
11. Paid-up equity share capital (Face Value Rs. 10/- each)	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112
12. Other equity as shown in the audited Balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	(2,44,269)
13. Earnings per equity share (of Rs. 10/- each) (not annualised):						
a. Basic	(1.00)	(5.58)	(1.04)	(7.86)	(29.86)	(30.89)
b. Diluted	(1.00)	(5.58)	(1.04)	(7.86)	(29.86)	(30.89)

Note:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges, BSE & NSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 13 February, 2021. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.ilfsengg.com.

Place: Hyderabad
 Date: 13.02.2021

By Order of the Board
 Sd/-
C S Rajan
 Director

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED
 Registered Office: 25, C-Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110 058
 Website: http://www.spacapital.com/CapitalServices/ CIN: L65910DL1984PLC018749, Tel No.: 011-45586600, 45675500, E-Mail Id: listing@spacapital.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3rd QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020
 (Rs. In crores except for Shares and EPS)

SI No	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended December 31, 2020	Quarter Ended September 30, 2020	Quarterly Ended December 31, 2019	Nine Months ended December 31, 2020	Nine Months ended December 31, 2019	Year ended March 31, 2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1. Total Income from Operations (net)		4.543	7.67	7.29	25.53	21.74	32.71
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)		-0.139	0.092	0.101	0.046	0.116	0.698
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		-0.139	0.015	0.101	-0.031	0.108	0.689
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		-0.139	0.015	0.068	-0.056	0.058	0.158
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profits/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))		-0.139	0.015	-0.871	0.056	-0.880	-0.781
6. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		13.36	13.50	14.18	13.36	14.18	13.41
7. Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)		30,74,225	30,74,225	30,74,225	30,74,225	30,74,225	30,74,225
8. Earnings Per Share (Face Value of Rs.10/- each)							
Basic:		-0.454	-0.049	-2.833	-0.182	-2.863	-2.540
Diluted:		-0.454	-0.049	-2.833	-0.182	-2.863	-2.540

Note:
 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the 3rd quarter and Nine months ended December 31, 2020 of the Financial year 2020-21 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI Listing Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the 3rd quarter and Nine Months ended December 31, 2020 of the Financial year 2020-21 is available on the website of Stock Exchange at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at http://www.spacapital.com/CapitalServices/.
 2. The Financial Results of the Company for the 3rd quarter and Nine Months ended December 31, 2020 of the Financial year 2020-21 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 12, 2021 and the same have been reviewed by the Statutory Auditors in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

Place: New Delhi
 Dated: February 12, 2021

एण्ड यूल् एण्ड कम्पनी लिमिटेड
ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
 (A Government of India Enterprise)
 CIN: L63090WB1919G0I003229

Registered Office: "Yule House", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata-700 001,
 Ph.: (033) 2242-8210 / 8550, Fax No.: (033) 2242-9770,
 E-mail: com.sec@andrewyule.com, Website: www.andrewyule.com

Extract of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020
 (Rs. in lakhs except as otherwise stated)

SL NO.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 Months Ended 31.12.2020	9 Months Ended 31.12.2020	Corresponding 3 Months Ended 31.12.2019	3 Months Ended 31.12.2020	9 Months Ended 31.12.2020	Corresponding 3 Months Ended 31.12.2019
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1. Total Income from operations (net)		11918.41	30096.38	9716.30	11918.41	30096.38	9716.30
2. Net Profit / (Loss) for the period before tax		887.36	4544.44	375.59	1247.98	5169.98	370.76
3. Net Profit / (Loss) for the period after tax		887.36	4544.44	375.59	1247.98	5169.98	370.76
4. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		1070.45	4726.50	(250.48)	1431.07	5352.04	(255.32)
5. Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs. 2/- per Equity Share)		9779.02	9779.02	9779.02	9779.02	9779.02	9779.02
6. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year		-	-	-	-	-	-
7. Earnings per Share (Face value Rs. 2/- per Equity Share)							
- Basic (Rs.)		0.18	0.93	0.08	0.26	1.06	0.08
- Diluted (Rs.)		0.18	0.93	0.08	0.26	1.06	0.08

Note:
 1) The standalone and consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee at their meetings held on 11th February, 2021 and 12th February, 2021, respectively, and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th February, 2021.
 2) The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.andrewyule.com).

Place: Kolkata
 Date: 12th February, 2021

SEL Manufacturing Company Limited
 (CIN: L51909PB2000PLC023679)
 Regd. Office: 274, Dhandari Khurd, G.T. Road, Ludhiana-141014 (Punjab)
 Ph.: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118, Website: www.selindia.in

Extracts of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended March 31, 2020
 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Consolidated				
	Quarter ended 31.03.2020	Quarter ended 31.12.2019	Quarter ended 31.03.2019	Financial Year ended 31.03.2020	Financial Year ended 31.03.2019
	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
1. Total Income from operations	15,708.19	10,217.12	14,490.12	45,164.57	69,841.59
2. Net Profit(+)/(Loss)(-) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,204.02	(3,947.46)	(5,821.37)	(13,211.39)	(12,362.74)
3. Net Profit(+)/(Loss)(-) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6,798.51)	(5,024.26)	(13,100.33)	(58,736.18)	(37,246.98)
4. Net Profit(+)/(Loss)(-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6,798.51)	(5,024.26)	(13,100.30)	(58,736.18)	(37,246.94)
5. Total Comprehensive Income(+)/(Loss)(-) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) after Minority Interest and Other Comprehensive Income (after tax)]	(7,186.17)	(5,235.48)	(13,272.09)	(59,787.20)	(37,554.07)
6. Equity Share Capital	33,134.70	33,134.70	33,134.70	33,134.70	33,134.70
7. Earning per Share (EPS) (of Rs.10/- each) (in Rs.) (not annualised)				(369,154.74)	(309,367.55)
a) Basic	B-(2.05)	B-(1.52)	B-(3.95)	B-(17.73)	B-(11.24)
b) Diluted	D-(2.05)	D-(1.52)	D-(3.95)	D-(17.73)	D-(11.24)

Note:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results for the quarter and financial year ended 31.03.2020 is available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and is also available on the website of the Company viz. www.selindia.in

2. Key Standalone financial information is given below:

Particulars	Quarter ended 31.03.2020	Quarter ended 31.12.2019	Quarter ended 31.03.2019	Financial Year ended 31.03.2020	Financial Year ended 31.03.2019
	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from operations	12,107.74	8,530.11	11,103.73	36,764.08	53,450.39
Profit(+)/(Loss)(-) before Tax	(4,815.55)	(3,544.34)	(10,583.58)	(254,101.36)	(23,596.54)
Profit(+)/(Loss)(-) after Tax	(4,815.55)	(3,544.34)	(10,583.58)	(254,101.36)	(23,596.54)

3. The above results were signed on 13.02.2021. Audit of the financial results for the quarter and financial year ended 31.03.2020 have been carried out by the Statutory Auditors.

Place: Ludhiana
 Date: 13-02-2021

S.P. APPARELS LIMITED
 CIN: L18101T22005PLC012295
 Regd. Office: 39-A, Extension Street, Kaikattipudur, Avinashi-641654, Tirupur, Tamilnadu
 Tel: +91-4296-714000, Fax: +91-4296-714280, 714281 E-mail: csoffice@s-p-apparels.com, Website: www.spapparels.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020
 (Rupees in millions except EPS and unless otherwise stated)

SI.No.	Particulars	Quarter ended Dec 31, 2020 (Unaudited)	Quarter ended Sep 30, 2020 (Unaudited)	Quarter ended Dec 31, 2019 (Unaudited)	Nine months ended Dec 31, 2020 (Unaudited)	Nine months ended Dec 31, 2019 (Unaudited)	For the year ended March 31, 2020 (Audited)
1	Total Income from operations	2,097.67	1,902.43	1,815.91	4,616.38	6,631.50	8,326.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	266.19	231.57	150.81	439.54	489.78	541.40
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after, Exceptional and/or Extraordinary items#)	266.19	231.57	150.81	439.54	489.78	444.09
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after, Exceptional and/or Extraordinary items#)	196.54	187.83	18.95	326.15	441.10	469.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	157.66	204.11	(33.21)	337.31	378.58	395.01
6	Paid-up equity share capital (face value Rs. 10/-) [Amount]	25,69,26,000	25,69,26,000	25,69,26,000	25,69,26,000	25,69,26,000	25,69,26,000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	4,975.29
8	Earning Per Share (Rs.) - Basic and Diluted (Net Profit/(Loss) for the period after tax/Weighted average number of equity share	7.65	7.31	0.74	12.69	17.17	18.26
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)

Note:
 1. The above unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 13, 2021.
 2. This statement has been prepared in accordance with the recognition principle laid down in Indian Accounting Standards 34 "Interim Financial Reporting" [IND AS 34], prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies.
 3. The company operates in one segment (i.e.,) Textile business, which in the context of Indian Accounting standard (IND AS) 108 - operating segment, is considered as the only reportable operating segment of the company.
 4. Effective 01.04.2019, the Company has adopted Ind AS 116-leases, applied to its existing lease contracts on April 1, 2019 using the modified retrospective approach.
 5. Pursuant to the amendment in the Income Tax Act, 1961 effective 20.09.2019, which provides for an option to Domestic Companies to pay Income Tax at reduced rates, the current tax expenses of the Company reduced by Rs.40.18 Million and the deferred tax income of the company increased by Rs.128.31 Million for the year ended March 31, 2020.
 6